

YU

गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास, बोकारो

कक्षा -तीन

विशेष- कार्य(१३)

दिनांक-१३/०७/२०२०

विषय- हिंदी

सत्र-( २०२०-२०२१)

पुनरावृत्ति- कार्य

पाठ-६ , सबका साथी

निर्देश:- नीचे दिए गए सभी कार्यों को हिंदी विशेष- कॉपी में करें।

( प्रश्न ३ और ४ के उत्तर नीचे दिए गए हैं)

१. शब्दार्थ-

- क) लेटेक्स- रबड़ के पेड़ की दूध की जमी परत
- ख) सिकुड़ - संकुचित
- ग) सुदृढ़ - मज़बूत
- घ) टिकाऊ - टिकने वाला
- ङ) नरम - कोमल
- च) डोल - गोल बर्तन

२. (प्रश्न -उत्तर)

- क) संसार में रबड़ कहाँ पाया जाता है ?  
उत्तर- संसार में रबड़ गर्म प्रदेशों में पाया जाता है।
- ख) रबड़ की खोज कब और कहाँ हुई ?  
उत्तर- रबड़ की खोज सन् 1736 में यूरोप में हुई।

- ग) सख्त परत वाले दूध को किस नाम से पुकारा जाता है?  
उत्तर- सख्त परत वाले दूध को 'लेटेक्स' नाम से पुकारा जाता है।

३. दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए-

(सरलता, खिलौने, माँग, गर्म प्रदेशों, उपयोगी, यूरोपवासियों )

- क) मैं रबड़ हूँ और मुझसे \_\_\_\_\_ चीज़े तैयार की जाती है।  
ख) मैं \_\_\_\_\_ में पाया जाता हूँ।  
ग) मेरी खोज \_\_\_\_\_ ने की थी ।  
घ) मेरी \_\_\_\_\_ बहुत बढ़ गई है।  
ङ) मुझसे बने \_\_\_\_\_ बच्चों को बहुत भाते हैं।  
च) मैं \_\_\_\_\_ से उपयोग में लाया जा सकता हूँ।

४. दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए-

- क) नरम- \_\_\_\_\_ ख) मज़बूत- \_\_\_\_\_ ग) अधिक- \_\_\_\_\_  
घ) अनेक- \_\_\_\_\_ ङ.) दिन- \_\_\_\_\_ च) प्रेम- \_\_\_\_\_

५. रबड़ से बनने वाली पाँच वस्तुओं के नाम लिखिए।

१. पर्स
२. कंघा
३. जूते

४. गेंद

५. टायर

उत्तर:- ३. क) उपयोगी ख) गर्म प्रदेशों ग) यूरोपवासियों

घ) माँग ड.) खिलौने च) सरलता

उत्तर:- ४. क) कठोर ख) कमज़ोर ग) कम घ) एक ड.) रात च) घृणा

\*गृह कार्य में हिंदी व्याकरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 23 और 24 को भरें।

\_\_\_\_\_ समाप्त \_\_\_\_\_